



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97]
No. 97]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1979/फाल्गुन 9, 1900
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1979/PHALGUNA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 फरवरी, 1979

का०अ० 117 (अ).—अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन किया गया निम्नलिखित आदेश प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में संशोधन करने के लिए तारीख 9 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र और तमिलनाडु राज्य के शासकीय राजपत्र में अपनी प्रस्तापनाएं प्रकाशित की थी ;

और, इस आयोग द्वारा तमिलनाडु राज्य के बारे में इन प्रस्तापनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर तारीख 8 नवम्बर, 1978 का तिरुचिरापल्ली और तारीख 11 नवम्बर, 1978 का मद्रास में हुई सार्वजनिक बैठकों में विचार किया गया था ;

यह आयोग, तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में (ऐसे आदेश में यथा-

वर्णित किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में कोई परिवर्तन न करते हुए) निम्नलिखित संशोधन करता है :—

I. उक्त आदेश की अनुसूची 2 में पद 19-तमिलनाडु के मामले सम्बन्ध 7 के नीचे श्रंक "2" के स्थान पर श्रंक "3" रखा जाएगा।

II. उक्त आदेश की अनुसूची 20 में :—

- (1) भाग क—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में—28-मेरम्बलूर (अ० जा०) में विद्यमान प्रविष्टि "157-उप्पिलियापुरम" के स्थान पर "157-उप्पिलियापुरम (अ० ज० जा०)" प्रविष्टि रखी जाएगी; और
- (2) भाग ख—विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में—निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "157-उप्पिलियापुरम" के स्थान पर "157-उप्पिलियापुरम (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा।

श्याम लाल शर्मा

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

आदेश से,

[सं० 282/त० नाडू/अ० जा०-अ० ज० जा०/78]

बी० नागसुब्रमण्यम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1979

S.O. 117(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 8 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the following Order made by the Election

Commission under clause (d) of sub-section (3) of section 6 of the Act is hereby published.

ORDER

Whereas under clause (a) of sub-section (3) of section 6 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the proposals of the Election Commission to amend the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, were published in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State of Tamil Nadu on 9th September, 1977;

And whereas all objections and suggestions received in relation to the said proposals relating to the State of Tamil Nadu were considered by the Commission at public sittings held at Tiruchirapalli on 8 November, 1978 and Madras on 11 November, 1978;

The Commission hereby makes the following amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order) in respect of the State of Tamil Nadu.

I. In Schedule II of the said Order, against item 19-Tamil Nadu—under column 7, the figure “3” shall be substituted for the figure “2”.

II. In Schedule XX of the said Order—

(1) in Part A—Parliamentary Constituencies—in 28 Perambalur (SC), the entry “157-Uppiliapuram (ST)”, shall be substituted for the existing entry “157-Uppiliapuram”; and

(2) in Part B—Assembly Constituencies—the serial number and name of the constituency “157-Uppiliapuram (ST)” shall be substituted for “157-Uppiliapuram”.

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India

By Order

[No. 282/TN/SC/ST/78]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.